

# RANA SUGARS LIMITED

REGD. OFFICE: SCO 49-50, SECTOR 8-C, MADHYA MARG, CHANDIGARH -160 009 (INDIA) TEL.: 0172-2540007, 2549217, 2541904, 2779565, 2773422 FAX: 2546809

CIN: L15322CH1991PLC011537 PAN: AABCR6744C

E-mail: info@ranasugars.com Website: www.ranasugars.com

RSL/22-23/CS

November 15, 2022

To.

Department of Corporate Services (DCS) The BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001.

Ref: Scrip Code: 507490

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051.

Company Symbol: RANASUG

Sub: Newspaper advertisement of Financials Results for Quarter and half year ended September 30, 2022.

Ref: Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement for the Un- Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022, published on November 15, 2022 in the following newspapers:

- 1. Business Standard (English) all editions.
- 2. Business Standard (Hindi) Chandigarh edition.

You are requested to kindly take the above on your records.

Thanking you, Yours sincerely,

For RANA SUGARS LIMITED

RANA INDER PRATAP SINGH MANAGING DIRECTOR

DIN: 00075107

Encl.: As above

### Website: www.ptlenterprise.com, Email: investors@ptlenterprise.com Tel: 0484-4012046, 4012047, Fax: (0484) - 4012048 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30. 2022

				,	₹ LAKHS
SL.	PARTICULARS	QUARTE	R ENDED	HALF YEAR ENDED	YEAR ENDED
No.	TARTICOLARO	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	31.03.2022
		(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)
1	Total income from operations	1,609.19	1,581.20	3,217.50	6,322.15
2	Net profit for the period (before tax & exceptional items)	1,577.92	1,591.95	2,830.51	5,204.97
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,577.92	1,591.95	2,830.51	5,204.97
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	888.79	1,206.30	1,484.56	3,298.88
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	9,622.12	1,277.18	9,672.66	380.80
6	Paid-up equity share capital (equity shares of ₹ 1 each)	1,323.77	1,323.77	1,323.77	1,323.77
7	Reserves excluding revaluation reserves				27,427.59
8	Earnings per share (of ₹ 1 each) (not annualised)				
	Basic (₹)	0.67	0.91	1.12	2.49
	Diluted (₹)	0.67	0.91	1.12	2.49

The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended September 30, 2022 financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year ended September 30, 2022 financial results are available on the stock exchange websites (National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) & BSE Limited (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ptlenterprise.com)

> For and on behalf of the Board of Directors of PTL ENTERPRISES LTD.

Place: Gurugram Date: November 14, 2022

**ONKAR KANWAR** 



## RANA SUGARS LIMITED

Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh - 160009 Telephone: (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565, Email: info@ranagroup.com Website: www.ranasugars.com

CIN: L15322CH1991PLC011537 (Rs. in Lakhs)  Extract of Statement of Un-audited Financial Results for the Six Months/ Quarter ended September 30, 2022						
	PARTICULARS		s ended	6 Months	Year ended	
		30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	37805.25	27691.24	80541.11	65008.68	140029.15
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	84.05	1190.22	2063.01	6601.53	12519.26
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	84.05	1190.22	2063.01	6601.53	10901.91
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after	84.05	1190.22	1646.68	6601.53	8521.49
5.	Exceptional Items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after	84.05	1190.22	1646.68	6601.53	8590.65
6. 7.	tax)] Equity Share Capital Other Equity	15353.95 0.00	15353.95 0.00	15353.95 0.00	15353.95 0.00	15353.95 29544.55
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - Before Exceptional Items					
	- Basic	0.05	0.78	1.07	4.30	6.60
	- Diluted	0.05	0.78	1.07	4.30	6.60
9.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - After Exceptional Items					
	- Basic - Diluted	0.05 0.05	0.78 0.78	1.07 1.07	4.30 4.30	5.55 5.55

under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as at Company's website www.ranasugars.com.

Place: Chandigarh Date: 14.11.2022

For Rana Sugars Limited Rana Veer Pratap Singh



## W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568 Registered Office: 108, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai - 600 116

**RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2022** (under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015)

	₹ III Eaki								
			STANDALON	E		CONSOLIDTE	D		
S. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED 30th Sept. 2022	HALF YEAR ENDED 30th Sept 2022	QUARTER ENDED 30th Sept. 2021	QUARTER ENDED 30th Sept. 2022	HALF YEAR ENDED 30th Sept 2022	QUARTER ENDED 30th Sept. 2021		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		
1	Total income from operations (net)	464.60	487.75		464.60	487.75			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional/Extraordinary items)	(215.44)	(233.60)	(177.82)	(215.54)	(234.13)	(178.31)		
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional/ Extraordinary items)	(215.44)	1411.82	(1240.45)	(215.54)	1411.29	(1240.94)		
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	(215.44)	1411.82	(1240.45)	(215.54)	1411.29	(1240.94)		
5	Total Comprehensive income for the period {Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)}	(215.44)	1411.82	(1240.45)	(215.54)	1411.29	(1240.94)		
6	Equity Share Capital	3089.48	3089.48	2626.06	3089.48	3089.48	2626.06		
7	Reserves excluding Revaluation reserves	(5215.68)	(5215.68)	(16291.65)	(5220.52)	(5220.52)	(16298.04)		
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing operations) (of Rs.10/- each)								
	a) Basic	(0.79)	4.40	(4.82)	(0.79)	4.40	(4.83)		
1				1					

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Half Year ended 30th September 2022 unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the guarter and half Year ended 30th September 2022 are available on the Stock Exchange Websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.wsindustries.in/KYC)

4.40

(4.82)

(0.79)

4.40

(4.83)

(0.79)

- The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board at its meeting held on 14th November 2022, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
- 3. The Group is adopting Indian Accounting Standards (Ind AS) and this unaudited financial results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2022 are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder.
- Figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to this period's classifications and as per amended schedule iii to the Companies Act, 2013.

## STANDALONE:

b) Diluted

- 5. The Company is in Normal Operations wef Q2 of this Financial Year.
- 6. Further to alienation of discontinued business there are no reportable amounts towards the same in the current quarter. The operations for the current quarter is from the continuing business of turnkey projects and newly commenced
- The company continues to prepare its Accounts and the Statement of unaudited financial results on a 'going concern' basis of accounting.
- 8. Land at Porur Chennai has been classified as Investment Property wef FY 2022-2023.

## **CONSOLIDATED:**

Place: Chennai

Date: 14th November 2022

- 9. The Consolidated financial statements relate to W.S. Industries (India) Limited (the Parent Company), and its Subsidiary Company. The Parent Company with its subsidiary constitute the Group.
- 10. The Subsidiary Company considered in the consolidated financial statements is WS Insulators Private Limited, whose country of incorporation is in India and the percentage of voting power by W.S. Industries (India) limited as on 30th September 2022 is 100%
- 11. The Group is not required to provide Segment Reporting under the criteria specified in IND AS 108.

for W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED SEYYADURAI NAGARAJAN CHAIRMAN DIN: 07036078



GroupMega





Regd.Office: A-33, Second Floor, F.I.E.E, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi - 110020 | Ph.: +91 11 46557134 email: info@megacorpltd.com, www.megacorpltd.com

### UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. In Lakhs except per share data

		STANDALONE					
SI.	Particulars	Half Yea	r Ended	C	Quarter Ende	d	Year Ended
No.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
		30.09.2022	30.09.2021	30.06.2022	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
(I)	Total Revenue from operations (Including Other Income)	164.86	162.92	81.38	83.48	83.42	313.36
(II)	Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items	39.87	8.42	20.65	19.22	4.99	6.10
(III)	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	39.87	8.42	20.65	19.22	4.99	6.10
(IV)	Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items	39.87	8.42	24.43	19.22	4.99	16.04
(V)	Total comprehensive Income for the period [comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	39.87	8.42	24.43	19.22	4.99	18.81
(VI)	Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- each)	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
(VII)	Earning per Equity Share (quarterely figures are not annualised) (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02
(VIII)	Earning per Equity Share (quarterely figures are not annualised) (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02

Notes:

The above unaudited results, reviewed by the Audit Committee were taken on record, by the Board of Directors in the meeting held on 14th November, 2022

2. Provision for Taxation & Deferred tax adjustment will be considered at the end of the year

3. Previous Year/ Qtrs. Have been regrouped/ rearranged, wherever necessary. For Mega Corporation Limited Sd/-Sd/-

Krashmee Bhartiva Surendra Chhalani Kunal Lalani (Company Secretary) Date: 14.11.2022 (Director) (Director & CFO) Membership No. A66667 DIN: 00002756 DIN:00002747 Place: New Delhi

### **BPL LIMITED**

Regd. Office: BPL Works, Palakkad - 678 007, Kerala. CIN: L28997KL1963PLC002015 E-mail: investor@bpl.in, URL: www.bpllimited.com, Tel: No.+91 80 25589109

### Statement of Unaudited Standalone / Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th September 2022

	(RS. III LARIIS)							
			Standalone	Consolidated				
		Quarte	Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended		
SI. No.	Particulars	30-Sep-22	30-Sep-21	31-Mar-22	30-Sep-22	31-Mar-22		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
1.	Total Income from Operations	1,223.27	1,290.87	4,919.18	1,225.33	4,919.18		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	176.41	266.59	764.85	170.83	764.85		
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	176.41	266.59	764.85	170.83	764.85		
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	176.41	266.59	1,294.95	170.83	1,294.95		
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	176.41	266.59	1,646.91	170.83	1,646.91		
6.	Paid up Equity Share Capital	4,897.67	4,888.58	4,890.69	4,897.67	4,890.69		
7.	Securities Premium Account	9.64		2.24	9.64	2.24		
8.	Net worth	16,853.50	14,752.04	16,545.55	30,390.22	30,092.47		
9.	Debt Equity Ratio	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07		
10.	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -"							
	1. Baisc:	0.36	0.55	3.37	0.35	3.37		
	2. Diluted:	0.36	0.55	3.37	0.35	3.37		
11.	Capital Redemption Reserve	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00		
12.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-		
13.	Debt Service Coverage Ratio	8.31	7.94	9.47	8.13	6.40		
14.	Interest Service Coverage Ratio	6.58	7.00	5.43	6.40	5.43		

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules applicable Notes: a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the guarterly financial results is available on the websites of the Stoc Exchanges and the listed entity.

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock exchange and Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL (www.bseindia.com www.nseindia.com) c) There is no impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial item due to changes it

accounting policies to be disclosed by means of a footnote.

For **BPL Limited** Sd/-Ajit G Nambiar Place: Bangalore Date: 14th Nov 2022 Chairman & Managing Director

kotak°

## **KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED**

Regd. Office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Website: www.Kotak.com Telephone: +91-22-61660000

## Extract of financial results for quarter ended September 30, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter ended Sept. 30, 2022 (Unaudited)	Quarter ended Sept. 30, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	71,388.66	62,589.92	2,62,562.52
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	36,145.86	28,250.76	1,29,905.01
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	36,145.86	28,250.76	1,29,905.01
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	26,986.70	21,198.91	97,470.40
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	37,969.24	29,787.41	1,11,574.67
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per share)	349.52	349.52	349.52
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	9,26,172.25	8,19,149.73	8,71,321.59
8	Securities Premium Account	53,075.16	53,075.16	53,075.16
9	Net Worth	9,79,596.93	8,72,574.40	9,24,746.27
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	19,71,807.67	16,77,817.73	19,58,078.30
11	Outstanding Redeemable Preference Shares		_	_
12	Debt Equity Ratio	2.01	1.92	2.12
13	Earnings per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic	772.11	606.51	2,788.69
	2. Diluted	772.11	606.51	2,788.69
14	Capital Redemption Reserve	100.00	100.00	100.00
15	Debenture Redemption Reserve	_	_	_
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.
Note	s:			

- 1) The Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on November 12, 2022 and November 14, 2022 respectively. The results have been subjected to "Limited Review" by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of BSE Limited at **www.bseindia.com** and the Company at
- For the items referred in sub-clauses (a), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limit can be accessed on www.bseindia.com
- Figures for the previous year have been regrouped wherever necessary to conform to current period/year

For and on behalf of Board of Directors **Kotak Mahindra Prime Limited** 

Branch- Ramganj Mandi-II

SSESSION NOTICE [Section 13(4)] (For Immovable Property)

hereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation Ar econstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) The constitution of maintain assess and unfortenent of security materials and account of the control of the security interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice date 27.06.2022 calling upon the borrower/surety/owner Mr. Siraj Mohd. S/o Surbati and Mr. Shain Mohd. S/o Siraj. Near Meeno ki hatai Khairabad, Ramganj Mandi, District-Kota and Sri. Tikam Chand Mali S/o Bhanwar Lal, Mali Mohalla, Near Satyanarayan Mandir, Ramganjmandi, District Kota (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 8,10,377.15 (Rupees Eigh akh Ten Thousand Three Hundred Seventy Seven and Paisa Fifteen Only) as on 27.06.2022 + plu nterest and charges from 27.06.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public

eneral that the undersigned has taken **Physical possession** of the property described herein belo exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 o said Rule on this 11th day of November of the Year 2022. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the proper

and any dealings with the property will be subject to the charge of **Canara Bank** for an amount of **Rs. 8,10,377.15** (Rupees Eight Lakh Ten Thousand Three Hundred Seventy Seven and Paisa Fifteen Only) and further interest and other expenses thereon. The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Residential house Khasra No. 1231 situated at VPO Khairabad, Ramganjmandi, Dist. Kota, Adm 1440 Sq. Mtrs. Property Owned by- Mr. Siraj Mohd. Boundaries are as under- North: Street and House of Amarial. South-Road. East-House of Harun, West-Road. Authorised Officer, Canara Bank Date: 11-11-2022 Place : Ramganj Mandi

> APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

(for immovable property)

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 01.08.2022 calling upon the Borrowers SATISH KUMAR LOTTA AND DIVYA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.16.47.874.09 (Rupees Sixteen Lakh Forty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Four and Paise Nine Only) against Loan Account No. HDHLDPR00489257 (Earlier LAN Code 00000552 of DHFL) as on 29.07.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.16,47,874.09 (Rupees Sixteen Lakh Forty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Four and Paise Nine Only) as on 29.07.2022 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FREEHOLD DDA JANTA FLAT NO. 245 ON FIRST FLOOR, POCKET-6 SITUATED IN NASIR PUR. DWARKA, PHASE-1, NEW DELHI - 110075. Sd/-

**Authorised Officer** 

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

### ATN INTERNATIONAL LIMITED CIN: L65993WB1983PLC080793

Regd Office: 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072 Email : atninternationallimited@gmail.com, website: www.atninternational.ir

Phone No. 033-40022880, Fax: 91-33-22379053 **EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE** 

QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. In Lacs) Quarter Ended Quarter Ended Half Year Ende Particulars 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 (Unaudited) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) for the period 1.40 1.20 2.83 (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#) (12.44)(14.53)(16.26) (29.18 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (12.44 (14.53)(16.26) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/o (12.44)(14.53)(16.26)

(29.18 Extraordinary items#)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and (29.18 Other Comprehensive Income after tax)] Equity Share Capital 1578.00 1578.00 1578.00 1578.00 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (for continuing and discontinued operations) (0.04)1. Basic: Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com and on the Company's website www.atninternational.in.

b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financia tiem(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable.

For ATN INTERNATIONAL LIMITED Sd/- Santosh Kumar Jain, Managing Directo Date: 14th November, 2022 DIN NO. 00174235

### APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

## Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 15.03.2022 calling upon the Borrowers DEVENDER KUMAR AND SHANAND DEVI to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.29,37,936.70 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Seven Thousand Nine Hundred Thirty Six and Paise Seventy Only) against Loan Account No. HHLRHN00475630 as on 15.03.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower having failed to repay the amount. Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 09.11.2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount o Rs.29,37,936.70 (Rupees Twenty Nine Lakhs Thirty Seven Thousand Nine Hundred Thirty Six and Paise Seventy Only) as on 15.03.2022 and interest

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets

## **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

GROUND FLOOR ONLY UPTO CEILING LEVEL OF FREEHOLD PROPERTY BEARING NUMBER 141 ADMEASURING TOTAL AREA 40 SQUARE METERS (APPROX), DDA JANTA FLATS SITUATED AT SOUTH ENCLAVE, DAKSHINPURI, NEW DELHI-110062 ALONG WITH ALL RIGHTS, TITLES, INTEREST OF ALL KINDS, EASEMENTS APPURTANCES THERETO AND LIENS ALONG WITH PROPORTIONATE, UNDIVIDED, INDIVISIBLE AND

Date: 09.11.2022

IMPARTIBLE RIGHTS IN THE LAND BENEATH

Place: NEW DELHI

Place: Mumbai Date: November 14, 2022 Vyomesh Kapasi

Managing Director

Authorised Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Sd/-

चंडीगढ़ मंगलवार, 15 नवंबर 2022

## पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L01115HR1994PLC032244, पंजीकृत कार्यालयः ग्राम भादसों, उमरी-लंदरी रोड, तहसील : इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा-134109, फोन नंबर 0172-4660993 वेबसाइटः www.picagro.com; ई-मेलः piccadilygroup34@rediffmail.com 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमादी और छमादी के लिए समेकित संयक्त अलेखापरीक्षित विनीय परिणाम (ईपीएस डेटा को छोड़कर रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण		समाप्त समाप्त तिमाही छमाही			समाप्त वर्ष	
		30.09.2022 ( अलेखापरीक्षित)	30.06.2022 ( अलेखापर्रीक्षत )	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 ( अलेखापर्विक्षत )	30.09.2021 ( अलेखापरीक्षित )	31-03-202 (लेखापरीक्षित
1. 2.	प्रचालनों से कुल आय (निवल) अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	11653.01 469.09	18850.85 1048.85			29787.43 2797.57	
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	469.09	1048.85	1115.27	1517.96	2797.57	4134.89
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/हानि (असाधारण मदों के पश्चात)	389.07	751.55	872.17	1140.65	2114.07	2923.69
5.	(असाधारण मदा क पश्चात) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	350.16	749.29	882.47	1099.47	2125.92	2924.24
6. 7.	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रदत्त) आय प्रति शेयर रु. 10/– प्रत्येक (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)	9466.12	9466.12	9466.12	9466.12	9466.12	9466.12
	<ol> <li>बेसिक</li> <li>डाइल्य्टेड</li> </ol>	0.37					
	2. 6120/906	0.37	0.79	0.93	1.16	2.25	3.0

गया है:

स्थानः गुरुग्राम दिनांक: 12-11-202

उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनसा कंपनी (भारतीय लेखा मानक), 2015 के नियमों के नियम 3 और उसके बाद अन्य पासंगिक संशोध के साथ पतित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत तैयार किए गए हैं।

उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 11 नवम्बर 2022 को आयोजि बैठक में की गई है और 12 नवम्बर 2022 को हुई बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है व्यवसाय खंड में से एक मौसमी प्रकृति का है, किसी भी तिमाही में प्रदर्शन कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन क प्रतिनिधि नहीं हो सकता है।

पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को इस अवधि के वर्गीकरण की पृष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यव हो, पुनः समृहित किया गया है।

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार नीचे दिय

		( ई	पीएस डेटा	को छोड़	कर लाख	रुपये	में )
विवरण	समाप्त तिमाही			सम छम	समाप वर्ष		
	30.09.2022 ( अलेखापरीक्षित )	30.06.2022 ( अलेखापरीक्षित )	30.09.2021 ( अलेखापरीक्षित )	30.09.2022 ( अलेखापरीक्षित )	30.09.2021 ( अलेखापरीक्षित )	31-03-: (लेखापरी	2022 क्षित)

9151 82 30503 88 29787 43 57610 3 11653.02 18850.86 431.38 1091.28 1115.27 1522.66 2797.57 4146.89 पतत प्रचालनों से कर प्रश्चात लाभ 351.3 793.9 872.1 1145.35 2114.07 2935.6 ासतत प्रचालनों से लाभ√(हानि) मन्य व्यापक आय हल व्यापक आय 1145.35 2114.07 2935.68 351.37 793.99 872.17 पिकाडिली एग्रो इंडस्टीज लिमिटेड के लि

हरविंदर सिंह चोपड़

डीआईएन-0012989

彸

जोनल ऑफिस : ओल्ड जीटी रोड दुर्गा मंदिर कॉम्पलेक्स प्रथम फ्लोर, बस स्टैंड के पास, करनाल-132001 फोन 0184-4020154, ई-मेल : zo.haryana@ucobank.co.in

## सोने की नीलामी सह आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन शाखाओं में गिरवी रखे गए और उचित सूचना के बाद छुड़ाए नहीं किए गए सोने के आभूषणों की नीलामी 30 **नवम्बर, 2022 को दोपहर 12.00 बजे** नीचे उल्लेखित शाखाओं में की जाएगी

शाखा और खाते का नाम और खाता सं.  (1) जुलाना (2489) जितेन्द्र पुत्र रणबीर मकान सं. 444, वीपीओ, फतेहगढ़ जुलाना, जिंद खाता 24890610002001  (2) गनौर (2485) हेमंत पुत्र रमेश मकान सं. 475 वार्ड 13, गनौर खाता 24850610007815  (3) गनौर (2485) जितेन्द्र पुत्र सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत खाता 2485061000714  1 चैन + लॉकेट, 1 लेडी रिंग विद्या क्षाल प्रमुख स्विक कुमार. 9671250339	•	•			
(1) जुलाना (2489) जितन्द्र पुत्र रणबीर मकान सं. 444, वीपीओ, फतेहगढ़ जुलाना, जिंद खाता 24890610002001  (2) गनौर (2485) हेमंत पुत्र रमेश मकान सं. 475 वार्ड 13, गनौर खाता 24850610007815  (3) गनौर (2485) जितन्द्र पुत्र सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत  (1) जुलाना, (वंदे, 100/— जुमां भेडिकल हॉल पुत्र स्वेश मकान सं. 475 वार्ड 13, गनौर खाता 24850610007815  (3) गनौर (2485) जितन्द्र पुत्र सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत  (1) जुलाना, गर्वमेंट हॉस्पिटल के पास, मुख्य बाजार, जिला जिंद, 126101 शाखा प्रमुख: विवेक गुप्ता, मों. 9857849788  रूपये 59,090/— गनौर जिला सोनीपत  (प्रनकोड—131101 शाखा प्रमुख: सचिन कुमार. 9671250339					
(2) गनीर (2485) हेमंत पुत्र रमेश मकान सं. 475 वार्ड 13, गनौर खाता 24850610007815  (3) गनौर (2485) जितेन्द्र पुत्र सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत  1 चैन + लॉकेट, 1 लेडी रिंग अौर जिलो सोनीपत  59,090/- गनौर जिला सोनीपत  पिनकोड-131101 शाखा प्रमुख: सचिन कुमार. 9671250339  ***  *** *** *** *** ** ** ** ** ** *	जितेन्द्र पुत्र रणबीर मकान सं. 444, वीपीओ, फतेहगढ़ जुलाना, जिंद	1 जी रिंग, + 1 एल रिंग	6	1,64,100/– जुलाना, गर्वमेंट मुख्य बाजार, जि शाखा प्रमुख :	वर्मा मेडिकल हॉल हॉस्पिटल के पास, जा जिंद, 126101 विवेक गुप्ता, मों.
(3) गनौर (2485) जितेन्द्र पुत्र सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत पिनकोड-131101 शाखा प्रमुख : सचिन कुमार.	हेमंत पुत्र रमेश मकान सं. 475 वार्ड 13, गनौर	3 जोड़ी टॉप्स, (टुटे हुए), 1 एल रिंग (टुटी हुई)	7	59,090/- पिनकोड- शाखा प्रमुख	गनौर जिला सोनीपत –131101 : सचिन कुमार.
	ेजितेन्द्र पुत्रे सुभाष (गुलिया) वीपीओ दुषेता तहसील और जिलो सोनीपत	1 चैन + लॉकेट, 1 लेडी रिंग	2	95,931/- सोनीपत पिनव शाखा प्रमुख	गनौर जिला कोड–131101 : सचिन कुमार.

ए) बैंक आभूषण / सिक्कों के वजन या शुद्धता की गारंटी नहीं देता है, या इसकी सोने की सामग्री होने या अन्यथा की। खं) इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा **30 नवंबर, 2022 को सुबह 10:00 बजे** बैंक में निरीक्षण के लिए गहने उपलब्ध है।

सी) इच्छुक खरीदारों को आरक्षित मूल्य का 25% बयाना राशि जमा करनी होगी।

डी) गहना 24 घंटे के भीतर या बैं के के अगले कार्य दिवस पर अपने व्यावसायिक घंटे के दौरान शेष राशि के भुगतान फ उच्चतम बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।

ई) यदि सफल बोलीदाता राशि को भुगतान करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता बयाना राशि जब्त कर लेगा और गहन उस तारीख से 30 दिनों के भीतर फिर से बेचा जा सकता है और बयाना राशि से अधिक कमी बोलीदाता से वसूली योग्य होगी जिसने पहले की नीलामी में सफलतापर्वक बोली लगाई है लेकिन भगतान के खिलाफ गहने की डिलीवरी नहीं ली है।

एफ) असफल बोलीदाता नीलामी समाप्त होने के तु रंत बाद बयाना राशि की वापसी का हकदार होगा। छ) बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी को रोक दे, इस मामले में बयान राशि जो भी जमा करता है उसे वापस कर दिया जाएगा।

एच ) बैंक आवश्यकता के मामले में नीलामी को रद्द / स्थगित करने के स भी अधिकार रखता है।

सहायक महाप्रबंधक



# राणा शुगर्स लिमिटेड

पंजीकृत ऑफिस : एससीओ 49-50, सेक्टर 8-सी, मध्या मार्ग, छत्तीसगढ़-160009 दूरभाष : (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565 ई-मेल : info@ranagroup.com वेबसाइट : www.ranasugars.com

	CIN: L15322CH1991PLC011537 (रु. लाखों में)							
	30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिम	ाही/ छह माही	के लिए अलेख	ापरीक्षित वित्ती	य परिणामों का	निष्कर्ष		
	विवरण	समाप्त	तिमाही	समाप्त घ	<b>इ</b> ह माही	समाप्त वार्षिक		
		30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2022 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2021 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित)		
1.	परिचालनों से कुल आय (निवल)	37805.25	27691.24	80541.11	65008.68	140029.15		
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, और असाधारण मदों से)	84.05	1190.22	2063.01	6601.53	12519.26		
3.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) कर पूर्व (असाधारण मदों के पश्चात)	84.05	1190.22	2063.01	6601.53	10901.91		
4.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) कर पश्चात (असाधारण मदों के पश्चात)	84.05	1190.22	1646.68	6601.53	8521.49		
5.	अवधि हेतु कुल  समेकित आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समेकित आय (कर पश्चात) ]	84.05	1190.22	1646.68	6601.53	8590.65		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	15353.95	15353.95	15353.95	15353.95	15353.95		
7.	अन्य इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	29544.55		
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/– के) (वार्षिक नहीं) – असाधारण मदों से पूर्व							
	(अ) मूल	0.05	0.78	1.07	4.30	6.60		
	(ब) तनुकृत	0.05	0.78	1.07	4.30	6.60		
9.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/– के) (वार्षिक नहीं) – असाधारण मदों से पश्चात							
	(अ) मूल	0.05	0.78	1.07	4.30	5.55		
	(ब) तनुकृत	0.05	0.78	1.07	4.30	5.55		

**टिप्पणियाँ : 1.** उपरोक्त, सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, २०१५ के विनियम ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.raugars.com पर उपलब्ध है।

स्थान : 14.11.2022

प्रति राणा शुगर्स लिमिटेड राणा वीर प्रताप सिंह

### सार्वजनिक सूचना

र्न्यसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, **मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2. मुथूट चेम्बर्स,** बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (02.10.2021 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 23.11.2022

Paonta Sahib-(HP): BLS-21, 37, 66, MDL-620, 771, 801, 812, 813, 818, 848, 852, 888, 931, MUL-1679, 4742, 5381, 7962, 9042, 9064, RGL-206, 1217, 1266, 1380, 1618, 1712, 1882, 1884, 1954, 1965, 1990, 1998, 2010, 2035, 2041, 2053, 2070, 2073, 2081, 2084, 2106, 2109, 2129, 2135, 2151, 2179, 2184, 2210, 2217, 2222, 2249, 2283, 2298, 2299, 2315, 2322, 2338, 2343, 2345, 2346, 2373, 2408, 2412, 2423, 2435, 2522, 2538, 2557, 2566, 2641, 2651, 2664, 2673, 2683, 2686, 2687, 2690, 2703, 2758, 2787, 2800, 2814

2816, 2829, 2860, 2868, 2870, 2887 द्वितीय नीलामी की तिथि: 24.11.2022, Auction Centre: Muthoot Finance Limited, First Floor, Ward No.5, Opp OBC Bank, Paonta Sahib-HP

प्रथम नीलामी की तिथि: 23.11.2022 Bilaspur-(HP): MDL-79, 84, 94, 96, 102, 120, 132, 142, 149, 156, 157, 178, MUL-1317, RGL-491, 517, 578, 582, 593, 629, 631, 634, 639, 646, 651, 664, 670, 684, 692, 717, 719,

द्वितीय नीलामी की तिथि: 25.11.2022, Auction Centre: Ground Floor, Opp. ICICI Bank, Court Road, Near SBI Bank, Bilaspur (HP)-174001

प्रथम नीलामी की तिथि: 23.11.2022

Mandi-(HP): MDL-164, 186, MUL-1094, 1264, 1270, 1271, 1287, 1314, 1348, 1351, 1354, 1360, WBS-6 द्वितीय नीलामी की तिथि: 26.11.2022, Auction Centre: Ground Floor, 126, Ward No.12, Ram Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh-176123 प्रथम नीलामी की तिथि: 23.11.2022

Una-(HP): MAL-698, MDL-178, MUL-4049, RGL-509, 847, 881, 968, 1021, 1108, 1116, 1129, 1220, 1221, 1222, 1228, 1242, 1247, 1267, 1318, 1359, 1383, 1384, 1392, 1398,

1402, 1408, 1416, 1443, 1502, 1507, 1512, 1513, 1523 द्वितीय नीलामी की तिथि: 28.11.2022, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Auckland Complex, Upper Ground Floor, Hamirpur Road Una HP-174303 प्रथम नीलामी की तिथि: 23.11.2022

Parvanoo: MDL-451, 462, 464, 474, 477, 478, 479, 484, 485, 499, 501, 510, MHP-264, MUL-4551, 4925, 5458, 5506, 5507, 5524, 5575, 5577, 5579, 5584, 5588, 5630, 5637 5644, 5654, 5655, 5662, 5671, 5685, 5698, RGL-339, 406, 411, 425, 434, 440, 453, 509, 518, 526, 532, 547, 548, 549, 552, 553, 559, 560, 565, 566, 567, Solan-(HP): MDL-957 991, 1009, 1068, 1071, 1072, 1078, 1097, 1098, 1125, 1129, 1130, 1135, 1144, 1146, 1147, 1154, 1178, 1203, 1215, MOS-87, MUL-2055, 7478, 9952, 10551, 10604, 10606, 10609, 10627, 10633, 10651, 10674, 10683, RGL-54, 526, 927, 1914, 1950, 1998, 2000, 2002, 2056, 2158, 2355, 2368, 2387, 2392, 2406, 2429, 2471, 2499, 2503, 2547, 2549, 2554, 2609, 2631, 2641, 2655, 2687, 2700, 2709, 2711, 2715, 2733, 2755, 2789, 2812, 2817, 2822, 2839, 2857, 2858, 2859, 2860, 2870, 2882, 2908, 2920, 2939, 2945, 2965, 2867, 27000, 2700, 2968, 2982, 2994, 3003, 3005, 3007, 3030, 3031, 3066, 3072, 3073, 3106, 3109, 3120, 3166, 3172, 3194, 3207, 3208, 3212, 3213, 3214, Nalagarh-(HP): MAL-318, 388, 400, 443, 452, 485, MDL-116, 591, 593, 620, 634, MUL-1179, 1370, 1705, 1840, 1841, 1845, 1847, RGL-12, 296, 386, 492, 514, 524, 528, 542, 579, 629, 631, 644, 647, 654, 655, 666, 667, 671, 678, 684, 708, Baddi-(HP): BLS-7, MAL-64, 254, MDL-256, 339, 357, 364, MUL-1659, 1695, RGL-108, 198, 203, 230, 234, 253, 258, 310, 321, 341, 416, 438, 441, 445 447 456 474 513 527

द्भितीय नीलामी की तिथि: 29.11.2022, Auction Centre: First Floor, Hotel Gagan Palace Complex, Sector-2, National Highway, Parwanoo Distt-Solan, Himachal Pradesh-173220

प्रथम नीलामी की तिथि: 30.11.2022

lamirpur-(HP): MAL-52, MDL-81, 142, 153, 167, MUL-1152, 1154, 1166, 1168, 1169, 1176, 1186, 1197, 1200, 1219, 1221, 1228, 1229, 1254, 1257, 1265, 1271, 1276, 1284 द्वितीय नीलामी की तिथि: 01.12.2022, Auction Centre: First Floor, Lakhanpal Bhawan, Main Road Near Devpal Chowk, Gandhinagar, District Hamirpur, Himachal Pradesh-177001

प्रथम नीलामी की तिथि: 30.11.2022

Kangra-(HP): BLS-3, 6, MDL-223, 225, 226, 235, 238, 252, 258, 308, RGL-825, 872, 933, 969, 978, 983, 986, 999, 1017, 1058, 1070 द्वितीय नीलामी की तिथि: 02.12.2022, Auction Centre: First Floor, Above PNB, Main Road, Distt. Kangra, Himachal Pradesh-176001 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी आंगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आंगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

**नोटः** ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।





### पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैगमा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय: 602, छठवीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, क्रमांक 79/ घोरपडी, मुढ़वा रोड, पुणे-411036

2002 की धारा 13(2) के अधीन आप नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटीदाताओं ने अपनी अचल सम्पत्तियों को गिरवी पर रखकर मैगमा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटे

"एमएचएफ" अब वह पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड "पीएचएफएल" के नाम से ज्ञात से गृह ऋण/सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में ऋण की सुविधा हासिल की है। आप ऋण चुकता करने में विफल हो चुके हैं, आपके ऋण को अनर्जक सम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आपके अंतिम ज्ञात पते पर एक मांग सूचना भेजी गई थी, जो असेवित वापस आ गई। अतएव, आपके लिए वैकल्पिक सेवा के तौर पर प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इसके विषय वस्तु को यहां प्रकाशित किया जा रहा है। कर्जदारों, सह-कर्जदारों, गारंटीदाताओं, प्रतिभूतियों, बकाया रकमों, धारा 13(2) के अधीन भेजी गई मांग सूचना तथा दावा की गई रकम का विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

क्र. सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटीदाता का नाम एवं	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि रु. में
	पता तथा ऋण रकम			
01	अशोक, माधवी ऋण रकमः रु. 1218268.15 ऋण सं. एचएल/0035/एच/18/100013	मोहल्ला रेग्रान, तहसील हंसी एवं जिला हिसार में स्थित 140 वर्ग यार्ड परिमाप की गिरवी पर रखी सम्पत्ति मकान कर यूनिट नं. 695/21 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चौहदीः पूर्वः श्री राजेश, का मकान, पश्चिमः श्री सतबीर का मकान, उत्तरः श्री दीवान का मकान, दक्षिणः सङ्क।	10.10.2022	रु. 1428732.3 (रुपये चौदह लाख अट्टाइस सात सौ बनीस एवं पैसे तीस् मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 15.25% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
02	बीरमती, मनजीत, संदीप कुमार शिवरन, जय माता दी कंस्ट्रक्शन कं. ऋण रकमः रु. 1442637 ऋण सं. एचएम/0035/एच/17/100191	ग्राम हेबतपुर, तहसील नरौंद, जिला हिसार में स्थित खेवट नं. 71, मिन खतौनी नं. 161 मिन खसरा नं. 45//21/2/1 (4-1), 907 वर्ग यार्ड परिमाप की गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण सम्पत्ति।	21.10.2022	रु. 1621049.85 (रुपये सोलह लाख इक्कीस् हजार उनचास एवं पैसे पच्चासी मात्र) साथ में चुकत करने की तारीख तक सालाना 14,05% की दर से आगे के ब्याज की रकम
03	कपिल कुमार, अल्का रानी ऋण रकमः रु. 752169.24 ऋण सं. एचएम/0033/एच/17/100506	बालाजी कॉलोनी, घरौंदा, तहसील घरौंदा, जिला करनाल में स्थित खेवट नं. 1001, किट्टा-30 में समाविष्ट 141के 12एम के 34/25488 हिस्से के रूप में 20'x50' 111.11 वर्ग यार्ड अर्थात् 3 मरला 7 सरसई परिमाप की गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति रिहायसी प्लॉट का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चीहदी निम्नानुसारः उत्तरः 22' चीड़ी गली, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य	12.10,2022	रु. 879939.27 (रुपये आठ लाख उनासी हजार नौ सौ उनतालीस एवं पैसे सताईस मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 14.25% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
04	नरेश, कविता, कविता, राम मेहर ऋण रकमः रु. 860000 ऋण सं. एचएल/0420/एच/18/100052	पट्टी चौघरी, बैंक कॉलोनी, नगर पालिका के अंदर, कैथल, तहसील एवं जिला कैथल में स्थित खेवट नं. 203, किट्टा 2, रकबा 6 कगाल 16 मरला इसका 4/85 हिस्सा यानी 6.4 मरला में समाविष्ट 6.4 मरिया // 29 फीट x 60 फीट // 193.33 वर्ग यार्ड (लगभग) परिमाप की गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति रिक्त प्लॉट नं. 22 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	13.09.2022	रु. 917917.24 (रुपये नौ लाख सतरह हजार नौ सौ सतरह एवं पैसे चौबीस मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 16.00% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
05	पारस बत्रा, परवीन बत्रा, जोगिंदर कुमार ऋण रकमः रु. 500000 ऋण सं. एचएल/0139/एच/14/100016	मौजा जगधरी अब राजीव विहार कॉलोनी के नाम से ज्ञात, जगधरी, तहसील जगधरी, जिला-यमुना नगर, यमुना नगर जगधरी नगर निगम की सीमा के अंदर स्थित खसरा नं .75//2/2, 3/1 में समाविष्ट 65 वर्ग यार्ड परिमाप की गिरवी पर रखे गए रिहायसी मकान का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, पंजीकरण विकी विलेख सं. 8623 दिनांक 08.11.2004 के तहत मालिकानाप्राप्त तथा चौहरी निम्नानुसार: उत्तर: 8 चौड़ी गली, दक्षिण: हरी चंद का प्लॉट, पूर्वं: 20' चौड़ी गली, दक्षिण: हरी चंद का प्लॉट, पूर्वं: 20' चौड़ी राली, दक्षिण: हरी चंद का प्लॉट, पूर्वं:	21.10.2022	रू. 724081.18 (रुपये सात लाख चौबीस हजार इक्यासी एवं पैसे अड़ारह मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 15.55% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
06	संजीव कुमार, गीता देवी ऋण रकमः रु. 550000 ऋण सं. एचएफ/0420/एच/19/100098	ग्राम फारल, तहसील धंड एवं जिला कैथल में स्थित खेवट नं. 57, खतौनी नं. 84, भूमि का परिमाप 534.21 वर्ग यार्ड-17एम 6एस, 8के-ओएम परिमाप की भूमि में 53/480 हिस्से के रूप में गिरवी पर रखी सम्पत्ति/भूमि का सम्पूर्ण एवं सवागीण हिस्सा, पंजीकरण बिक्री विलेख सं. 521/1 दिनांक 24.05,2013 के तहत मालिकानाप्राप्त, उप पंजीयक धंड के कार्यालय में वर्ज, म्यूटेशन नं. 8646 तथा वर्ष 2019-20 के लिए ग्राम फारल की जमाबंदी, उत्तरः स्वताधिकारी, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः श्यामा देवी की भूमि, पश्चिमः 5 फीट चौड़ा रास्ता।	10.10.2022	रु. 600998.29 (रुपये छह लाख नौ सौ अनठानवे एवं पैसे उन्नतीस मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 16.25% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
07	सतीश कुमार शर्मा, रेखा शर्मा, एम एस मोदीपुर ट्रेडर्स ऋण रकमः रु. 1265980.21 ऋण सं. एचएम/0033/एच/16/100070	ग्राम मुगर माजरा, करनाल तहसील एवं जिला करनाल में स्थित खेवट नं. 47, खतौनी नं. 53, किट्टे 5, रकवा 19 कनाल 13 मरला, जिसका 41/1965 हिस्सा यानी 8 मरला 2 सरसई समाविष्ट 73.8 फीट x 30 फीट// 246 वर्ग यार्ड (लगभग) परिमाप की गिरवी पर रखी गई सम्मति मकान का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। परिमाप उत्तर - 30, प्लॉट का हिस्सा, दक्षिण-30', सुभाष का प्लॉट, पूर्वः 73.8 गली, पश्चिमः 73.8, सुरिंदर का मकान।	20.05.2022	रू. 1602416.69 (रुपये सोलह लाख दो हजार चार सो सोलह एवं पैसे उनहत्तर मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 14.30% की दर से आगे के ब्याज की रकम।
08	सतपाल सैनी, मनप्रीत ऋण रकमः रु. 525000 ऋण सं. एचएम/0420/एच/19/100036	ग्राम सीवान, तहसील सीवान तथा जिला कैथल में स्थित खसरा नं. 309/23/14/1 (0-6) घर मुनिकन बड़ा खेवट नं. 3519, खतीनी नं. 4122 में समाविष्ट 1.83 एम परिमाप, कुल भूमि के परिमाप का 11/36 हिस्सा, की गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति भूमि/प्लॉट का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा ठिनस्की चौहदी निम्नानुसार हैं: उत्तरः गली सरे आम, दक्षिण-आशानंद मेहता, पूर्वः बाली सैनी, पश्चिमः रमेश सैनी।	14.10.2022	रु. 563398.73 (रुपये पांच लाख तिरसट हजार तीन सौ अनटानवे एवं पैसे तिहत्तर मात्र) साथ में चुकता करने की तारीख तक सालाना 16.75% की दर से आगे के ब्याज की रकम।

साथ यहां उल्लिखित आगे के ब्याज की रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी लागू अधिनियम के अनुसार ऊपर उल्लिखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्रवाई करने को बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार इसी बीच आप पर हमारी अनुमति के बगैर बिक्री, पट्टा अथवा अन्य किसी भी तरीके से ऊपर उल्लिखित प्रत्याभृत सम्पतियों वे हस्तांतरण करने पर रोक लगा दी गई है। अधिकृत अधिकारी

आप कर्जदारों तथा सह कर्जदारों/गारंटीदाताओं को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर उल्लिखित मांग की गई रकम वे

मौजा पुंडारी, तहसील पुंडारी तथा जिला कैथल में

स्थित खेवट नं. 2064, किट्टे 5, रकबा 34 कनाल

4 मरला, इसका 11/4104 हिस्सा यानी 1 मरला

8 सरसई में समाविष्ट 1 मरला 8 सरसई // 10 फीट

6 इंच x 47 फीट // 55 वर्ग यार्ड (लगभग) परिमाप

की गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 8 का सम्पूर्ण

एवं सर्वांगीण हिस्सा, चौहदीः उत्तरः 10.5 फीट रास्ता,

दक्षिण-10.5एफएल, शेलर, पूर्वः 47 फीट, अन्य का

कृते पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में मैगमा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

14.10.2022

रु. 176369.61

(रुपये एक लाख छिहत्तर हजार तीन सौ उनहत्तर

एवं पैसे इकसट मात्र) साथ

में चकता करने की तारीख

तक सालाना 13.75%

के ब्याज की रकम।

स्थान : हरियाण तारीख : 15.11.2022

ऋण रकमः रु. 140000

ऋण सं

एचएम/0420/एच/17/100175